



प्रेस विज्ञप्ति

31.03.2020

श्री नागेश्वर राव ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के
कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया



श्री नागेश्वर राव ने आज दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यग्रहण करने से पहले श्री नागेश्वर राव 15 अप्रैल 2019 से सिंडीकेट बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एवं पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। सिंडीकेट बैंक में कार्यग्रहण करने से पहले उन्होंने 22 जनवरी, 2016 से तत्कालीन विजया बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री नागेश्वर राव ने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत विजया बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में वर्ष 1985 में की थी। उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 35 वर्षों का गहन अनुभव है। बैंक में अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण करने के बाद वे महाप्रबंधक स्तर तक पहुंचे और फील्ड स्तर के साथ प्रधान कार्यालय स्तर पर भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने फील्ड स्तर पर शाखा प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य किया और मुख्यालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी, आयोजना एवं विकास, जोखिम प्रबंधन, मर्चेन्ट बैंकिंग, ग्राहक संबंध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। कार्पोरेट कार्यालय में जाने से पहले उन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में स्थित 12 विभिन्न केन्द्रों पर कार्य किया।

उन्होंने वर्ष 2009-10 के दौरान विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक में निदेशक के रूप में और वर्ष 2013-14 के दौरान केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस में निदेशक के रूप में सेवाएं प्रदान कीं।



श्री नागेश्वर राव कॉमर्स में स्नातक हैं और कई भाषाओं में पारंगत भी हैं। वे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एन्ड फाइनेंस के सर्टिफाइड एसोशिएट हैं। श्री नागेश्वर राव ने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोजिकोड, कैफरेल आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही, वर्ष 2011 में सिडनी और 2016 में वाशिंगटन में कार्यशाला/ प्रशिक्षण में सहभाग लिया। श्री नागेश्वर राव सिडनी में एसआईबीओएस सम्मेलन 2018 में शामिल हुए और जनवरी 2019 में शिकागो में आईएसबी ग्लोबल एडवांस्ड मैनेजमेन्ट प्रोग्राम में भी सहभाग लिया।